



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 8, 2017/श्रावण 17, 1939

No. 310]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 8, 2017/ SRAVANA 17, 1939

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2017

सं.विधि 42 (3)/87--- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 के अधीन जारी अधिसूचना सं. 145 (ई) दिनांक 21 फरवरी, 1991 के खण्ड 1 के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा 1 के खण्ड (ख) और धारा 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032 एतद्वारा (क) नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला को उक्त अधिनियम और इसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को सौंपे गये कार्य करने हेतु "पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं" के रूप में और (ख) तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को विश्लेषण के लिए भेजे गये वायु, जल, एवं अन्य पदार्थों के स्तंभ (4) में दर्शाए गए पैरामीटरों के संबंधित समूहों के लिए विनिर्दिष्ट नमूनों का विश्लेषण करने हेतु सरकारी विश्लेषक के रूप में मान्यता देता है। दिनांक 03 अगस्त, 2016 की अधिसूचना संख्या विधि/42(3)/87, की क्रम संख्या 165 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम	सरकारी विश्लेषक का नाम	मान्यता हेतु पैरामीटर समूह
1	2	3	4
166.	क्षेत्रीय निदेशालय (दक्षिण), केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, निसर्ग भवन, 1 और 2 तल, 7 'डी' मेन तिम्मय्या रोड, शिवानगर, बंगलौर-560079 कर्नाटक	1. श्री एस. सुरेश, वैज्ञानिक 'ई' 2. श्री टी.के. राधेश्याम बालाजी वैज्ञानिक 'घ' 3. श्री एस. जेयापौल वैज्ञानिक 'ग'	भौतिक, सामान्य, रसायन एवं गैर मेटेलिक, धातु, कार्बनिक, सूक्ष्मजीव विज्ञान, विष विज्ञान, जैवकीय, परिसंकटमय अपशिष्ट, मृदा, स्लज, तलछट और परिवेशी वायु के विश्लेषण हेतु वायु प्रदूषण पैरामीटर, स्रोत उत्सर्जन, शोर तथा सूक्ष्म मौसम विज्ञान संबंधी पैरामीटर

167.	क्षेत्रीय प्रयोगशाला, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 6वां तल, सिविल लाइन, नागपुर-440001, महाराष्ट्र	1. श्री आर.बी. सोर्ट, वैज्ञानिक अधिकारी 2. श्री बी.यू. भानदरे कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी 3. श्रीमती ए.एस. सैनगुप्ता, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 4. श्री जी.एस. नागर कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	भौतिक, सामान्य, एवं गैर मेटेलिक, धातुएँ, कार्बनिक, सूक्ष्मजीव विज्ञान, विष विज्ञान, जैवकीय और परिवेशी वायु के विश्लेषण हेतु वायु प्रदूषण पैरामीटर्स, स्रोत उत्सर्जन, शोर और सूक्ष्म मौसम विज्ञानिक पैरामीटर्स और वाहन उत्सर्जन पैरामीटर्स
168.	गुजरात पर्यावरणीय प्रबंधन संस्थान (जी.ई.एम.आई.) प्रयोगशाला, प्लॉट सं. : ए-58, जी.आई.डी.सी. एस्टेट, सैक्टर- 25, गांधी नगर-382025 गुजरात	1. श्रीमती निताशा खतरी, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी 2. श्री परवेश चावडा, उप-पर्यावरणीय अभियंता 3. श्रीमती हर्षिदा मोदी वैज्ञानिक अधिकारी/उप-प्रभारी प्रयोगशाला	भौतिक, सामान्य, एवं गैर मेटेलिक, धातुएँ, कार्बनिक, सूक्ष्मजीव विज्ञान, विष विज्ञान, और परिवेशी वायु के विश्लेषण के लिए वायु प्रदूषण के पैरामीटर्स, स्रोत उत्सर्जन, शोर एवं सूक्ष्म मौसम विज्ञानिक पैरामीटर्स

इस प्रकार उल्लिखित पर्यावरणीय प्रयोगशाला तथा सरकारी विश्लेषक अधिसूचना जारी होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेंगे।

एस.पी. सिंह परिहार, अध्यक्ष
[विज्ञापन-III/4/असा./171/17]

पाद टिप्पणी:

मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 728 (ई), दिनांक 21.07.1987 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसके पश्चात उसमें निम्नलिखित के द्वारा संशोधन किये गये : (1) का.आ. 838 (ई), दिनांक 23.09.87 (2) का.आ. 989 (ई) दिनांक 17.11.87 (3) का.आ. 489 (ई) दिनांक 17.05.88 (4) का.आ. 156 (ई) दिनांक 24.02.89 (5) का.आ. 846 (ई) दिनांक 24.10.89 (6) का.आ. 375 (ई) दिनांक 26.04.1990 (7) का.आ. 803(ई) दिनांक 23.09.92 (8) का.आ. 97 (ई) दिनांक 05.12.1994 (9) का.आ. 418(ई) दिनांक 31.03.1996 (10) का.आ. 889 (ई) दिनांक 31.08.1996 (11) का.आ. 452 (ई) दिनांक 31.05.97 (12) का.आ. 631 (ई) दिनांक 31.05.1998 (13) का.आ. 336(ई) दिनांक 01.01.1999 (14) का.आ. 44 (ई) दिनांक 15.01.2001, (15) का.आ. संख्या 490 (ई), दिनांक 01.06.2001, (16) का.आ. संख्या 532 (ई), दिनांक 01.01.2002, (17) का.आ. संख्या 1168 (ई), दिनांक 01.06.2001, (18) का.आ. संख्या 888 (ई), दिनांक 01.06.2003, (19) विधि/42(3)/87, दिनांक 01.06.2004, (20) विधि/42(3)/87, दिनांक 01.03.2005 (21) विधि/42(3)/87, दिनांक 01.09.2005, (22) विधि/42(3)/87, दिनांक 15.12.2005, (23) विधि/42(3)/87, दिनांक 01.05.2006, विधि/42(3)/87 दिनांक 01.09.2006, विधि/42(3)/87 दिनांक 01.01.2007, विधि/42(3)/87 दिनांक 15.04.2007, विधि/42(3)/87 दिनांक 01.08.2007, विधि/42(3)/87, दिनांक 01.10.2007, विधि/42(3)/87, दिनांक 01.02.2008, विधि/42(3)/87, दिनांक 01.04.2008, विधि/42(3)/87, दिनांक 01.10.2009, विधि/42(3)/87, दिनांक 15.01.2010, विधि/42(3)/87, दिनांक 20.09.2010, विधि/42(3)/87, दिनांक 27.01.2011, विधि/42(3)/87, दिनांक 31.01.2012, 14.08.2014, 10.03.2015, 11.12.2015, 07.03.2016 और दिनांक 03.08.2016।

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th MARCH, 2017

No. Legal 42(3)/87- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 12 and 13 read with clause 1 of the Notification No. 145 E, dated 21st February, 1991, issued under Section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032 hereby recognize, (a) the Laboratories specified in column (2) of the table below as 'Environmental Laboratories' to carry out the functions entrusted to the Environmental laboratories under the said Act, and the rules made there under and (b) specified persons in column (3) of the table as the Government Analysts for the purpose of analysis of samples of Air, Water, or other substances sent for analysis, specified for respective groups of parameters mentioned in column (4). After Sr. No. 165 of the Notification No. Legal/42(3)/87, dated 03th August, 2016, and the entries relating thereto, the following serial no. and entries shall be added, namely:-

S.No.	Name of Laboratory	Name of the Govt. Analysts	Recognized for parameter groups
(1)	(2)	(3)	(4)
166	Regional Directorate (South), Central Pollution Control Board, Nisarga Bhavan, 1 & 2 Floors, 7 th 'D' Main, Thimmaiah Road Shivanagar Bengaluru – 560079 Karnataka.	1. Sh. S. Suresh, Scientist –E 2. Sh. T.K. Radheshyam Balaji, Scientist –D 3. Sh. S. Jeyapaul, Scientist -C	Physical, General and non metallic, metals, organics, microbiological, toxicological, biological, Hazardous waste, soil, Sludge, Sediments, and air pollution parameters for analysis of ambient air, source emissions, noise and micrometeorological parameters.
167	Regional Laboratory, Maharashtra Pollution Control Board, 6 th Floor Civil Line Nagpur – 440001 Maharashtra.	1. Mr. R.B. Sorte, Scientific Office 2. Mr. B.U. Bhandare, Junior Scientific Officer 3. Mrs. A.S. Sengupta, Junior Scientific Assistant 4. Mr. G.S. Nagre, Junior Scientific Assistant	Physical, General and non metallic, metals, organics, microbiological, toxicological and air pollution parameters for analysis of ambient air, source emissions, noise and micrometeorological parameters.
168	Gujarat Environment Management Institute (GEMI) Laboratory, Plot No: A-58,G.I.D.C Estate, Sector-25 Gandhi Nagar-382025 Gujarat.	1. Mrs. Nitasha Khatri, Senior Scientific Officer 2. Mr. Paresh Chavda, Deputy Environment Engineer 3. Mrs. Harshida Modi, Scientific Officer/Deputy Laboratory Head	Physical, General and non metallic, metals, organics, microbiological, toxicological, and air pollution parameters for analysis of ambient air, source emissions, noise and micrometeorological parameters.

The Environmental Laboratories and the Government Analysts so mentioned shall remain valid for a period of five years from the date of issue of Notification.

S.P.SINGH PARIHAR, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./171/17]

Foot Note:

The principal notification was published in the Gazette of India vide No. S.O. 728(E), dated 21-7-1987 and subsequently amended vide- (1) Nos. S.O. 838 (E), dated 23-9-87, (2) S.O. 989 (E) , dated 17-11-87, (3) S.O. 489 (E) , dated 17-5-88, (4) S.O. 156 (E) , dated 24-2-89, (5) S.O. 846 (E), dated 24-10-89, (6) S.O. 375 (E), dated 26-4-1990, (7) S.O. 803 (E), dated 23-9-92, (8) S.O. 97 (E), dated 5-12-1994, (9) S.O. 418 (E), dated 31-3-1996, (10) S.O. 889 (E), dated 31-8-1996, (11) S.O. 452 (E), dated 31-5-97, (12) S.O. 631 (E), dated 31-5-1998, (13) S.O. 336 (E), dated 1-1-1999, (14) S.O. 44 (E), date 15-1-2001, (15) S.O. 490 (E), dated 1-6-2001, (16) S.O. 532 (E), dated 1-1-2002, (17) S.O. 1168 (E), dated 1-6-2001, (18) S.O. 888 (E), dated 1-6-2003, (19) Legal/42(3)/87, dated 1-6-2004, (20) Legal/42(3)/87, dated 1-3-2005, (21) Legal/42(3)/87, dated 1-9-2005, (22) Legal/42(3)/87, dated 15-12-2005, (23) Legal/42(3)/87, dated 1-5-2006, Legal/42(3)/87, dated 1-9-2006, Legal/42(3)/87, dated 1-1-2007, Legal/42(3)/87, dated 15-4-2007, Legal/42(3)/87, dated 1-8-2007, Legal/42(3)/87, dated 1-10-2007, Legal/42(3)/87, dated 1-2-2008, Legal/42(3)/87, dated 1-4-2008, Legal/42(3)/87, dated 1-10-2009, Legal/42(3)/87, dated 15-1-2010, Legal/42(3)/87, dated 20-9-2010, Legal/42(3)/87, dated 27-1-2011, Legal/42(3)/87, dated 31-1-2012, 14-8-2014 ,10 -03- 2015, 11-12-2015, 07-03-2016 and 03-08-2016.